



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 89]

नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 28, 2006/माघ 8, 1927

No. 89]

NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 28, 2006/MAGHA 8, 1927

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2006

**का.आ. 98(अ).—** लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 67 के अनुसरण में, निम्नलिखित घोषणा, जिसमें राज्य सभा के एक सदस्य अर्थात् श्री कर्ण सिंह, जो अपनी पदावधि के अवसान पर 27 जनवरी, 2006 को निवृत्त हो रहे हैं, के स्थान को भरने के लिए निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम अंतर्विष्ट है, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है:—

## घोषणा

राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन ।

“निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 11 के उपनियम (1) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53 की उपधारा (2) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

डॉ. कर्ण सिंह,  
निवासी 3, न्याय मार्ग,  
चाणक्यपुरी,  
नई दिल्ली-21

जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रायोजित हैं,

उस सदन में श्री कर्ण सिंह के, उनकी पदावधि के अवसान पर, 27 जनवरी, 2006 को निवृत्त होने के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्विशेष निर्वाचित हो गए हैं ।

स्थान : दिल्ली

तारीख : 31 दिसंबर, 2005

ह./-

रिटर्निंग आफिसर।”

[फा. सं. एच-11024(3)/2005-वि. II/1]

**MINISTRY OF LAW AND JUSTICE****(Legislative Department)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th January, 2006

**S.O. 98(E).**— In pursuance of section 67 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the following declaration containing the name of the candidate elected to fill the seat in the Council of States of one member, namely, Shri. Karan Singh, who retired on the 27<sup>th</sup> January, 2006 on the expiration of his term of office, is published for general information:-

**Declaration**

Election to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi.

“In pursuance of the provisions contained in sub-section (2) of section 53 of the Representation of the People Act, 1951, read with sub-rule (1) of rule 11 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that –

Dr. Karan Singh,  
R/O 3, Nyaya Marg,  
Chanakyapuri,  
New Delhi-21

sponsored by the Indian National Congress

has been duly elected unopposed to fill the vacancy in that House to be caused due to the retirement of Shri Karan Singh on the 27<sup>th</sup> January, 2006 on the expiration of his term of office.

Place: Delhi.

Date: 31<sup>st</sup> December, 2005.

Sd/-

Returning Officer.”

[F. No. H-11024(3)/2005-Leg. II/1]

T. K. VISWANATHAN, Secy.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2006

**का.आ. 99(अ).—** लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 12 के अधीन जारी की गई अधिसूचना सं० का०आ० 1795(अ), तारीख 21 दिसंबर, 2005 के अनुसरण में, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित राज्य सभा के सदस्य, श्री कर्ण सिंह के, जो अपनी पदावधि के अवसान पर 27 जनवरी, 2006 को निवृत्त हो गए हैं, स्थान को भरने के प्रयोजन के लिए निर्वाचन कराया गया है ;

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 71 के अनुसरण में, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित सदस्य का नाम सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है :

क्रम सं०	सदस्य का नाम
1.	डॉ. कर्ण सिंह

[फा. सं. एच-11024(3)/2005-वि. II/2]

टी. के. विश्वनाथन, सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th January, 2006

**S.O. 99(E).—** Whereas election has been held, in pursuance of notification number S.O.1795(E), dated the 21<sup>st</sup> December, 2005, issued under section 12 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), for the purpose of filling the seat of Shri Karan Singh, a member of the Council of States elected by the elected members of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi who retired on 27<sup>th</sup> January, 2006, on the expiration of his term of office;

Now, therefore, in pursuance of section 71 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the name of the member elected by the elected members of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi is hereby notified for general information:

Serial number	Name of the Member
---------------	--------------------

1.

Dr. Karan Singh

[F.No. H-11024(3)/2005-Leg. II/2]

T. K. VISWANATHAN, Secy.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2006

**का.आ. 100(अ).—** लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 67 के अनुसरण में, निम्नलिखित घोषणा, जिसमें राज्य सभा के एक सदस्य अर्थात् श्री जर्नादन द्विवेदी, जो अपनी पदावधि के अवसान पर 27 जनवरी, 2006 को निवृत्त हो रहे हैं, के स्थान को भरने के लिए निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम अंतर्विष्ट है, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है:--

**घोषणा**

राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन ।

“निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 11 के उपनियम (1) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53 की उपधारा (2) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि--

श्री जर्नादन द्विवेदी,  
निवासी 109, लिंक अपार्टमेंट्स,  
18, आई.पी. एक्सटेंशन,  
दिल्ली

जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रायोजित हैं,

उस सदन में श्री जर्नादन द्विवेदी के, उनकी पदावधि के अवसान पर, 27 जनवरी, 2006 को निवृत्त होने के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं ।

स्थान : दिल्ली

तारीख : 31 दिसंबर, 2005

ह./-

रिटर्निंग आफिसर ।”

[फा. सं. एच-11024(3)/2005-वि. 11/3]

टी. के. विश्वनाथन, सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th January, 2006

**S.O. 100(E).—** In pursuance of section 67 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the following declaration containing the name of the candidate elected to fill the seat in the Council of States of one member, namely, Shri Janardan Dwivedi, who retired on the 27<sup>th</sup> January, 2006 on the expiration of his term of office, is published for general information:-

**Declaration**

Election to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi.

“In pursuance of the provisions contained in sub-section (2) of section 53 of the Representation of the People Act, 1951, read with sub-rule (1) of rule 11 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that –

Shri Janardan Dwivedi,  
R/O 109, Link Apartments,  
18 IP Extension,  
Delhi.

sponsored by the Indian National Congress

has been duly elected unopposed to fill the vacancy in that House to be caused due to the retirement of Shri Janardan Dwivedi on the 27<sup>th</sup> January, 2006 on the expiration of his term of office.

Place: Delhi.

Date: 31<sup>st</sup> December, 2005.

Sd/-

Returning Officer.”

[F. No. H-11024(3)/2005-Leg. II/3]

T. K. VISWANATHAN, Secy.

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2006

**का.आ. 101(अ).**— लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 12 के अधीन जारी की गई अधिसूचना सं० का०आ० 1796(अ), तारीख 21 दिसंबर, 2005 के अनुसरण में, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित राज्य सभा के सदस्य, श्री जर्नादन द्विवेदी के, जो अपनी पदावधि के अवसान पर 27 जनवरी, 2006 को निवृत्त हो गए हैं, स्थान को भरने के प्रयोजन के लिए निर्वाचन कराया गया है ;

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 71 के अनुसरण में, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित सदस्य का नाम सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है :

क्रम सं०	सदस्य का नाम
1.	श्री जर्नादन द्विवेदी

[फा. सं. एच-11024(3)/2005-वि. II/4]

टी. के. विश्वनाथन, सचिव

249 GI/06-2

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th January, 2006

**S.O. 101(E).**—Whereas election has been held, in pursuance of notification number S.O.1796(E), dated the 21<sup>st</sup> December, 2005, issued under section 12 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), for the purpose of filling the seat of Shri Janardan Dwivedi, a member of the Council of States elected by the elected members of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi who retired on 27<sup>th</sup> January, 2006, on the expiration of his term of office;

Now, therefore, in pursuance of section 71 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the name of the member elected by the elected members of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi is hereby notified for general information:

Serial number	Name of the Member
---------------	--------------------

1.

Shri Janardan Dwivedi

[F. No. H-11024(3)/2005-Leg. II/4]

T. K. VISWANATHAN, Secy.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2006

**का.आ. 102(अ).**— लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 67 के अनुसरण में, निम्नलिखित घोषणा, जिसमें राज्य सभा के एक सदस्य अर्थात् श्री पी.एम.साईद, जिनकी पदावधि 27 जनवरी, 2006 तक थी किन्तु जिनका निधन 18 दिसंबर, 2005 को हो गया था, के स्थान को भरने के लिए निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम अंतर्विष्ट है, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है:—

**घोषणा**

राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन ।

“निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 11 के उपनियम (1) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53 की उपधारा (2) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री जय प्रकाश अग्रवाल,  
निवासी म० नं० 1998,  
नौधारा, किनारी बाजार,  
चांदनी चौक, दिल्ली-6

जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रायोजित हैं,

उस सदन में श्री पी.एम.सईद के, जिनकी पदावधि 27 जनवरी, 2006 तक थी परन्तु जिनका निधन 18 दिसंबर, 2005 को हो गया था, के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : दिल्ली

तारीख : 31 दिसंबर, 2005

ह./-

रिटर्निंग आफिसर।”

[फा. सं. एच-11024(3)/2005-वि. II/5]

टी. के. विश्वनाथन, सचिव

### NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January, 2006

**S.O. 102(E).**— In pursuance of section 67 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the following declaration containing the name of the candidate elected to fill the seat in the Council of States of one member, namely, Shri P.M. Sayeed, whose term of office was up to 27<sup>th</sup> January, 2006 but who expired on 18<sup>th</sup> December, 2005, is published for general information:-

#### Declaration

Election to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi.

“In pursuance of the provisions contained in sub-section (2) of section 53 of the Representation of the People Act, 1951, read with sub-rule (1) of rule 11 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that –

Shri Jai Parkash Aggarwal,  
R/O H.No.1998,  
Naughara, Kinari Bazar,  
Chandni Chowk, Delhi-6.

sponsored by the Indian National Congress

has been duly elected unopposed to fill the vacancy in that House held earlier by Shri P.M. Sayeed, whose term of office was up to 27<sup>th</sup> January, 2006 but who expired on 18<sup>th</sup> December, 2005.

Place: Delhi.

Date: 31<sup>st</sup> December, 2005.

Sd/-

Returning Officer.”

[F.No. H-11024(3)/2005-Leg. II/5]

T. K. VISWANATHAN, Secy.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2006

**का.आ. 103(अ).—** लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 12 के अधीन जारी की गई अधिसूचना सं० का०आ० 1797(अ), तारीख 21 दिसंबर, 2005 के अनुसरण में, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित राज्य सभा के सदस्य, श्री पी.एम.सईद के, जिनकी पदावधि 27 जनवरी, 2006 तक थी किन्तु जिनका निधन 18 दिसंबर, 2005 को हो गया था, स्थान को भरने के प्रयोजन के लिए निर्वाचन कराया गया है ;

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 71 के अनुसरण में, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित सदस्य का नाम सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है :

क्रम सं०	सदस्य का नाम
1.	श्री जय प्रकाश अग्रवाल

[फा. सं. एच-11024(3)/2005-वि. II/6]

टी. के. विश्वनाथन, सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th January, 2006

**S.O. 103(E).—** Whereas election has been held, in pursuance of notification number S.O.1797(E), dated the 21<sup>st</sup> December, 2005, issued under section 12 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), for the purpose of filling the seat of Shri P.M. Sayeed, a member of the Council of States elected by the elected members of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi, whose term of office was up to 27<sup>th</sup> January, 2006 but who expired on 18<sup>th</sup> December, 2005;

Now, therefore, in pursuance of section 71 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the name of the member elected by the elected members of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi is hereby notified for general information:

Serial number	Name of the Member
---------------	--------------------

1.

Shri Jai Parkash Aggarwal

[F.No. H-11024(3)/2005-Leg. II/6]

T. K. VISWANATHAN, Secy.